

@SHAJAHANPURPOL

प्रेस नोट-सहारनीय कार्य 05/03/2021

थाना जलालाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

फर्जी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के नाम पर आनलाईन ठगी करने वालो को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय जलालाबाद के नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा पुत्र स्वं महादेव सिंह नि0 ग्राम पोस्ट कुलवार थाना सरेया जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल नि0 6/1/1 हरीमोहन दत्ता रोड कलकत्ता द्वारा वाट्सएप के द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र बावत हिन्दूस्तान ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा उससे एडवांस में 4500/- रुपये जमा करा लेने के उपरान्त सामन हेतु गाडी न भेजने के के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में दौराने जांच अभियुक्त शिवांशु दीक्षित पुत्र अजय कुमार दीक्षित नि0 ग्राम गुरुगवां थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर व सूरज पुत्र प्रेमपाल नि0 ग्राम खखूडी थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर को दो मोबाईल फोन व एक अदद ए0टी0एम0कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनो अभियुक्तो द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोग द्वारा अपने साथी शिवम उर्फ दीपू पुत्र महेन्द्र पाल, विकास पुत्र शेर सिंह निवासीगण ग्राम गुडेरा थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद, अंकित सिंह पुत्र शिवपाल सिंहगं नि0 ठिगरी थाना दौलतपुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहाँपुर के साथ मिलकर फर्जी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी आल इंडिया ट्रान्सपोर्ट सर्विस व हिन्दुस्थान ट्रान्सपोर्ट के नाम से जस्ट डायल व गूगल पर नम्बर अपलोड किये हुए है। जब लोगो को गाडी की जरूरत होती है तो वह गूगल व जस्ट डायल पर नम्बर खोजते है वहाँ से लोग हम लोगो का नम्बर लेकर हमे काल करते है हम उनको गाडी व वाहन चालक उसका लाईसेंस आदि के फोटो वाट्सएप पर भेजकर उनसे एडवांस के नाम पर कुछ पैसे अपने खाते में डलवा लेते है। गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध के सम्बन्ध में थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

- 1—शिवांशु दीक्षित पुत्र अजय कुमार दीक्षित नि0 ग्राम गुरुगवां थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
- 2—सूरज पुत्र प्रेमपाल नि0 ग्राम खखूडी थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर

फरार अभियुक्त—

- 1—शिवम उर्फ दीपू पुत्र महेन्द्र पाल
- 2—विकास पुत्र शेर सिंह निवासीगण ग्राम गुडेरा थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद,
- 3—अंकित सिंह पुत्र शिवपाल सिंहगं नि0 ठिगरी थाना दौलतपुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी—

1. 02 मोबाईल व 1 अदद ए0टी0एम0 कार्ड

पंजीकृत अभियोग:—

- 1- मु0अ0स0 146/21 धारा 420/406/467/468/471 IPC बनाम सूरज आदि 05 अभियुक्त

पुलिस पार्टी का विवरण

1. श्री जसबीर सिंह SHO
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार
3. H.C 313 देवेन्द्र यादव
4. H.C 260 रनवीर सिंह
5. का0 1735 ज्ञानेन्द्र यादव
6. का0 1738 अभिलाष अवस्थी
7. का0 351 आशीष